

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय हिंदी

कक्षा दस अभ्यास पत्र

नवंबर (2024-25)

प्रश्न 1. निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

जीवन में सफल वही होता है, जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। चुनाव करने में तनिक भी भूल-चूक होने से हानि सुनिश्चित होती है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं होते, जैसे-माता-पिता का, जन्म-मृत्यु का आदि किंतु कुछ चुनाव हमारे वश में होते हैं, जिन पर हमारी सफलता-असफलता निर्भर करती है, जैसे-अच्छी-बुरी संगति का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव आदि। 'संगति का चुनाव' इन सब चुनावों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस चुनाव पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा, स्तर, मनुष्यता और हमारी सफलता-असफलता निर्भर करती है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकृष्ट होता है। जिस तरह पानी सदा नीचे की ओर जाता है, उसी तरह मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है। जिस प्रकार ऊँचाई तक जाने में कष्ट उठाना पड़ता है उसी प्रकार अच्छाई की ओर जाने में परिश्रम करना पड़ता है। हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं और इसी विवेक के आधार पर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि संगति मनुष्य को संमार्ग की ओर अग्रसर करती है। संगति व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है, विकास के लिए सुमार्ग की ओर प्रेरित करती है, बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है और सबसे बढ़कर व्यक्ति को स्वाभिमान प्रदान करती है। संगति के प्रभाव से पापी पुण्यात्मा और दुराचारी हो जाते हैं। ऋषियों की संगति के प्रभाव से ही वाल्मीकि जैसे भयानक डाकू महान कवि बन गए तथा डाकू अंगुलिमाल ने महात्मा बुद्ध की संगति में आने से हत्या, लूटपाट के कार्य को छोड़कर सदाचार के मार्ग को अपनाया। संगति एक प्राण वायु है जिसके संसर्ग मात्र से मनुष्य दयावान, विनम्र, परोपकारी एवं ज्ञानवान बन जाता है।

निम्नलिखित कथन पढ़कर नीचे दिए सही विकल्प का चयन कीजिए जीवन में संगति का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि

1. इस पर हमारा आचरण निर्भर करता है।
2. इस पर हमारे कर्म निर्भर करते हैं।
3. इस पर हमारी सफलता-असफलता निर्भर करती है।
4. इस पर हमारे विचार निर्भर करते हैं।

कूट

(i) केवल 2 सही है

(ii) 1 और 3 सही हैं

(iii) 1, 3 और 4 सही हैं

(iv) 1, 2, 3 और 4 सही हैं

(ख) निम्नलिखित में से किसका चुनाव हमारे वश में नहीं होता ?

(i) अच्छी-बुरी संगति का

(ii) माता-पिता का

(iii) आलस्य और परिश्रम का

(iv) इनमें से कोई नहीं

(घ) मनुष्य का चित्त किस ओर जल्दी आकृष्ट होता है ?

(ङ) गद्यांश में मानव मन की तुलना किससे की गई है ?

प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

- (क) गिन्नी के सोने का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है?
(ख) 'टी- सेरेमनी' में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों?
(ग) सआदत अली कौन था तथा कर्नल उसे अवध के तख्त पर क्यों बिठाना चाहता था ?
(घ) घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इफ़्रन के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अनजान, अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार लिखिए ।

प्रश्न 3. निर्देशानुसार कीजिए-

- (क) 'पत्नी के बीमार होने के कारण वह कार्यालय नहीं गया।' (मिश्र वाक्य में बदलिए)
(ख) 'रीता पढ़ रही है और लिख रही है।' (सरल वाक्य में बदलिए)
(ग) 'परमदानी राजा रंतिदेव ने एक भूखे व्यक्ति को अपनी भोजन की थाली दे दी थी।' (वाक्य में विशेषण पदबंध है ।)
(घ) 'यह वही कुत्ता है, जिसे नूह ने दुत्कार दिया था।' रेखांकित पदबंध का भेद बताइए ।
(ङ) देवमूर्ति , स्त्रीरत्न , वचनामृत (सही समास-विग्रह करके समास का नाम लिखिए ।)
(च) दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएँ- अंधे के हाथ बटेर लगना, घाव पर नमक छिड़कना, रंग दिखाना, आँखों का पानी मरना

प्रश्न 4. दिए गए विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए -

पर्यावरण संरक्षण : समय की माँग
संकेत बिंदु- मानव और पर्यावरण में अटूट संबंध, संरक्षण की आवश्यकता क्यों ?
संरक्षण की योजनाओं का प्रभाव, सुझाव

प्रश्न 5. आपके पिता जी के फैक्ट्री में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आप 15 दिन अस्पताल में रुककर उनकी देखभाल करते रहे। इस अवधि में विद्यालय न जाने के कारण आपका नाम काट दिया गया। दुबारा प्रवेश पाने के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्या को प्रार्थना-पत्र लिखिए।